



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 20—जून 26, 2009 (ज्येष्ठ 30, 1931)

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20—JUNE 26, 2009 (JYAISTHA 30, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2009

थल सेना शाखा

इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 335, दिनांक 11 मई 2009—राष्ट्रपति महोदय, ले. कर्नल (सेवा निवृत्त) बरूना मदान को दिनांक 01 अप्रैल 2007 (पूर्वाह्न) से ई एम ई कोर रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति महोदय, मेजर (सेवा निवृत्त) प्रिया बेडेकर को दिनांक 03 अप्रैल 2007 (पूर्वाह्न) से ई एम ई कोर रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति महोदय, मेजर (सेवा निवृत्त) गौरिस्था को दिनांक 01 अप्रैल 2007 (पूर्वाह्न) से ई एम ई कोर रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 336, दिनांक 11 मई 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

विंग कमाण्डर से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

आर के लाल्ला
(एमआर-03747एम)
(वा.से. 17103)

— 26 फरवरी 2007 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 अक्टूबर 2006 से दी जाती है।

बी एस राठोड

मेजर जनरल

अति म नि स से चि सेवा (कार्मिक)

सेना शाखा

सं. 337, दिनांक 11 मई 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमोशन

सर्जन ले. कमाण्डर से सर्जन कमाण्डर के पद पर

आर अन्नथा कृष्णन (एमआर-06948एन), (75626), एएमसी,
06 जनवरी 2009

विमल विभाकर (एमआर-06966डब्ल्यू), (75627बी), एएमसी,
06 जनवरी 2009

मेजर से ले. कर्नल के पद पर

श्रीमती शोभा रानी (एमआर-07601एन), एएमसी, 12 अगस्त 2007

देवाशीष साहू (एमआर-07677एन), एएमसी, 06 दिसम्बर 2008

तिलक बाहादुर खत्री (एमआर-07914एम), एएमसी, 23 दिसम्बर
2008

आर वेंकटरायण (एमआर-06950एल), एएमसी, 06 जनवरी 2009

यशवीर माथुर (एमआर-06957पी), एएमसी, 06 जनवरी 2009

यश पाण्डे

ब्रिगेडियर

डिप्टी डी जी ए एफ एम एस (एच आर)

सेना शाखा

सं. 338, दिनांक 11 मई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां
करती है :--

नियमित सेना

इन्फैंट्री

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 3184366एक्स अब जेसी-490397के),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार होशियार सिंह (सं. 3180872एल अब जेसी-490398एम),
17 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार शिवपाल सिंह (सं. 3182993एल अब जेसी-490399पी),
25 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) खेत सिंह राठौड़ (सं. 3179222एल अब
जेसी-490400वाई), 01 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 3180726एल अब जेसी-490391एच),
11 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार दीवान सिंह वर्मा (सं. 3180783एम अब जेसी-490392एल),
11 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 3180250के अब जेसी-490393एन),
04 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3185148एल अब जेसी-490394डब्ल्यू),
22 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 3182722एन अब जेसी-490395वाई),
19 दिसम्बर 2008

हवलदार सुभाष चन्द्र चौधरी (सं. 3180785एक्स अब जेसी-
490396एफ), 19 दिसम्बर 2008

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अनिल के (सं. 2593420वाई अब जेसी-440146के),
22 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार के मानीकम (सं. 2592857ए अब जेसी-440157डब्ल्यू),
27 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार टी ऐडवड साम (सं. 2591914के अब जेसी-440149एक्स),
15 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार वेनुगोपालान के (सं. 2593605ए अब जेसी-440080वाई),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार ए शेखर (सं. 2594996ए अब जेसी-440104एक्स),
12 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सन्तोष कुमार एस एस (सं. 2594930एम अब जेसी-440119ए), 06 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार पी माधाम्पन (सं. 2590179एम अब जेसी-440126डब्ल्यू), 11 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार प्रादीप कुमार एस (सं. 2592841पी अब जेसी-440134पी), 29 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेश कुमार बी (सं. 2593721एच अब जेसी-440135एक्स), 25 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार कुमार एन (सं. 2593648पी अब जेसी-440137एच), 29 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मोनया एम यू (सं. 2596162पी अब जेसी-440138एल), 29 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एम सीवाप्रसाद राव (सं. 2591044एक्स अब जेसी-440142एन), 08 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार कोसुरु चेल्ला राव (सं. 2591710एक्स अब जेसी-440143डब्ल्यू), 06 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जया कुमार के आर (सं. 3391268के अब जेसी-440144वाई), 17 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार कमालाक्षन (सं. 2592803वाई अब जेसी-440139एन), 01 नवम्बर 2008

हवलदार एम चेन्थामराई क्रिष्णन (सं. 2593132एम अब जेसी-440140एच), 01 नवम्बर 2008

हवलदार शन्मुगम वी (सं. 2594784एक्स अब जेसी-440145एफ), 17 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार पेदिटि रामक्रिष्ण (सं. 2596559एफ अब जेसी-440159एफ), 01 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार शजी वी के (सं. 2593682पी अब जेसी-440162एफ), 26 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एस अरुल राज (सं. 2592732एच अब जेसी-440163के), 03 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जी चेल्लादुराई (सं. 2593077एफ अब जेसी-440164एम), 04 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सी तंगराज (सं. 2592442एल अब जेसी-440166एक्स), 29 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सन्तोष कुमार एस (सं. 3391305एम अब जेसी-440168एच), 15 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार पदमापुरम रामा राव (सं. 2592358एल अब जेसी-440167ए), 16 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार वेल मुरुगन वी (सं. 2594696एफ अब जेसी-440156एन), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार मुथयान आर (सं. 2594820एक्स अब जेसी-440154एच), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार राम कुमार एल (सं. 2598585एफ अब जेसी-440155एल),
08 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार ऊथपा बी सी (सं. 2596918के अब जेसी-440165पो),
05 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एम जगन्नाथ (सं. 2592812ए अब जेसी-440160डब्ल्यू),
01 जनवरी 2009

हवलदार सुरेश कुमार बी (सं. 2592829एन अब जेसी-440034के),
09 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एन सुब्रामणी (सं. 2592620एच अब जेसी-440035एम),
11 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार चिदाम्बारम डी (सं. 2594438एफ अब जेसी-440047एफ),
01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार शनमुगावेल के (सं. 2592430डब्ल्यू अब जेसी-
440059डब्ल्यू), 11 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार ऐलसन धूमबीपूरम (सं. 2592778एल अब जेसी-
440060एल), 04 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार वी रवी (सं. 2593631एफ अब जेसी-440066एम),
12 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रेगु कुमार आर (सं. 2593410पी अब जेसी-440061एन),
28 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार नुटेन्को राजेन्द्र (सं. 2592450के अब जेसी-440052एन),
18 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 27 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार के आदिनारायना (सं. 2596660एफ अब जेसी-440088एल),
14 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार बाबुराज पुथुपाडी (सं. 2591969एन अब जेसी-440086ए),
04 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार ए स्वरनासेखरा बाबु (सं. 2591883पी अब जेसी-440102एम),
21 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार गोना कंसय्या (सं. 2591900के अब जेसी-440103पी),
21 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सी मुत्तू कुमार (सं. 2594239एन अब जेसी-440108एन),
10 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार पी लिवर राज (सं. 2593830पी अब जेसी-440118एक्स),
06 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार पुला मोहन (सं. 2592573डब्ल्यू अब जेसी-440128एफ),
11 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार देवराज बी (सं. 2592961एन अब जेसी-440127वाई),
15 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार के अलेक्सेनडर (सं. 2593109वाई अब जेसी-440121एक्स),
09 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जी मणी (सं. 2588582ए अब जेसी-440106एच),
01 सितम्बर 2008

हवलदार ए वासुदेवन (सं. 2593389एक्स अब जेसी-440089पी),
13 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मधु धरमा राव (सं. 2595543के अब जेसी-440107एल),
01 सितम्बर 2008

हवलदार एन गणेशमूर्ती नारायान, एस एम (सं. 2592068एन अब जेसी-440110एल), 18 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार के अगस्तियन राज (सं. 2594666के अब जेसी-440114एफ), 25 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार साजु फौल (सं. 2593418एल अब जेसी-440122ए),
01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जी सेलवन (सं. 2592174एम अब जेसी-440123एच),
01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अनील के एन (सं. 2592835एफ अब जेसी-440124एल),
08 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रोबीनसन सी (सं. 4359382के अब जेसी-440133एम),
20 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार पी वेंकटेशन (सं. 2592166एन अब जेसी-440117पी),
14 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार कीलू कान्था राव (सं. 2590462ए अब जेसी-440116एम),
20 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार ओ मणिकन्दन (सं. 2593066पी अब जेसी-440125एन),
06 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एस चंद्रासेखरन (सं. 3391197एन अब जेसी-440136ए),
29 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार दिनेश सिंह (सं. 2681353एफ अब जेसी-450595एम),
02 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2008)

हवलदार राज सिंह सिरौही (सं. 8031395एल अब जेसी-450596पी),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार नैन सिंह (सं. 2680830एल अब जेसी-450597एक्स),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं. 2680896एफ अब जेसी-450598ए),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार ओम प्रकाश मुनदीयारा (सं. 2680521एच अब जेसी-450599एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार कुंवर लाल (सं. 2680587वाई अब जेसी-450600एम),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार हुकमी राम (सं. 2680802वाई अब जेसी-450601पी),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार परमा राम (सं. 2681980एन अब जेसी-450602एक्स),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 2680289एच अब जेसी-450603ए),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार मोहिन्द्र सिंह (सं. 2683199एम अब जेसी-450604एच),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार करतार सिंह (सं. 2680230एच अब जेसी-450605एल),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार चेना राम (सं. 2680911एच अब जेसी-450606एन),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार अरुण कुमार सिंह (सं. 2682144डब्ल्यू अब जेसी-450607डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम प्रताप सिंह भदौरिया (सं. 2682214के अब जेसी-450608वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार विनोद कुमार (सं. 2682042ए अब जेसी-450609एफ),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार अब्दुल रज्जाक (सं. 2680214एल अब जेसी-450610डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम रन विजय सिंह (सं. 2680594पी अब जेसी-450611वाई),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार मान सिंह नरुका (सं. 2680644पी अब जेसी-450612एफ),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार नूरा (सं. 2680070एन अब जेसी-450613के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार जगदीश चन्द (सं. 2679711एच अब जेसी-450614एम), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (सं. 2682448एन अब जेसी-450615पी), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार कुशल चन्द (सं. 2680374एल अब जेसी-450616एक्स), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार बारू राम (सं. 2682052के अब जेसी-450617ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार खादीम अहमद (सं. 2682580एन अब जेसी-450618एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार खान मोहम्मद कायमखानी (सं. 2683204एम अब जेसी-450619एल), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार अस्त अली खान (सं. 2683247एफ अब जेसी-450620ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार तरसेम लाल शर्मा (सं. 2681588एन अब जेसी-450621एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार गोपाल सिंह ठाकुर (सं. 2680702एन अब जेसी-450622एल), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार बोध राज (सं. 2680680एम अब जेसी-450623एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2680200एल अब जेसी-450624डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार रमेश सिंह (सं. 2680205के अब जेसी-450625वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2680747एन अब जेसी-450626एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार स्वरूप सिंह (सं. 2680416एम अब जेसी-450627के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राजबीर (सं. 2680542वाई अब जेसी-450628एम), 06 अक्टूबर 2008

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं. 2680852के अब जेसी-450629पी), 06 अक्टूबर 2008

हवलदार मोहम्मद इस्लाम (सं. 2684480पी अब जेसी-450630के), 11 अक्टूबर 2008

हवलदार राम हरि सिंह (सं. 2678656एल अब जेसी-450631एम), 12 अक्टूबर 2008

हवलदार राकेश कुमार पाहेल (सं. 2678588एच अब जेसी-450632पी), 15 अक्टूबर 2008

हवलदार कालू सिंह (सं. 2680894डब्ल्यू अब जेसी-450633एक्स), 02 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2008)

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 2681571ए अब जेसी-450634ए), 23 अक्टूबर 2008

हवलदार इन्द्र सिंह (सं. 2678752ए अब जेसी-450635एच), 01 नवम्बर 2008

हवलदार हरि सिंह (सं. 2679480एक्स अब जेसी-450636एल), 13 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008)

हवलदार चोराला राम कृष्ण (सं. 2685065एम अब जेसी-450637एन), 01 नवम्बर 2008

हवलदार हवा सिंह (सं. 2680218एफ अब जेसी-450638डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

हवलदार बुद्ध राम (सं. 2680326एल अब जेसी-450639वाई), 01 नवम्बर 2008

हवलदार शिव भान सिंह (सं. 2680721वाई अब जेसी-450640एन), 01 नवम्बर 2008

हवलदार मेहर सिंह (सं. 2680585एन अब जेसी-450641डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

हवलदार अमर सिंह (सं. 2679667के अब जेसी-450642वाई), 01 नवम्बर 2008

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 2680598एल अब जेसी-450643एफ), 01 नवम्बर 2008

हवलदार शनेश कुमार मिश्रा (सं. 7430702एच अब जेसी-450644के), 01 नवम्बर 2008

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 2682085पी अब जेसी-450645एम), 01 नवम्बर 2008

हवलदार नेत्रपाल सिंह (सं. 2681841के अब जेसी-450646पी), 01 नवम्बर 2008

हवलदार बनारसी दास (सं. 2681834एन अब जेसी-450647एक्स), 01 नवम्बर 2008

हवलदार बरवादिया गोपाल कुमार चुन्नी भाई (सं. 2684604एल अब जेसी-450648ए), 01 नवम्बर 2008

हवलदार यशवन्त सिंह (सं. 2680037डब्ल्यू अब जेसी-450649एच), 13 नवम्बर 2008

हवलदार अजीम खान (सं. 2682896ए अब जेसी-450650एक्स), 13 नवम्बर 2008

हवलदार कृष्ण पाल सिंह (सं. 2681596एम अब जेसी-450651ए),
18 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक परिक्षित घोष (सं. 15359372एन अब जेसी-450652एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार/लिपिक प्रदीप कुमार एकागरा (सं. 15360471एच अब जेसी-450653एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार/लिपिक रवीन्द्र सिंह (सं. 15361934वाई अब जेसी-450654एन), 01 जनवरी 2009

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पदम सिंह (सं. 3987025वाई अब जेसी-520953एम),
26 जनवरी 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से)

हवलदार मदन लाल (सं. 3986546ए अब जेसी-520954पी),
21 जनवरी 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से)

हवलदार भानू सिंह (सं. 3986667एफ अब जेसी-520955एक्स),
21 जनवरी 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से)

हवलदार राज कुमार (सं. 3987704डब्ल्यू अब जेसी-520956ए),
25 जनवरी 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2009 से)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार दीवान सिंह (सं. 3988589एन अब जेसी-520957एच),
12 फरवरी 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से)

दी राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार/लिपिक हनुमन्त कुमार द्विवेदी (सं. 2986003एक्स अब जेसी-480331ए), 17 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 2986819एफ अब जेसी-480332एच),
26 अक्टूबर 2008

हवलदार बिजेन्द्रा सिंह (सं. 2985603एन अब जेसी-480333एल),
06 नवम्बर 2008

हवलदार रघु राज सिंह (सं. 2986899के अब जेसी-480334एन),
06 नवम्बर 2008

हवलदार राजेश कुमार (सं. 2989575एफ अब जेसी-480335डब्ल्यू),
06 नवम्बर 2008

हवलदार सवेश सिंह राठौर (सं. 2992586एफ अब जेसी-480336वाई),
06 नवम्बर 2008

हवलदार तिलक सिंह (सं. 2989278डब्ल्यू अब जेसी-480337एफ),
06 नवम्बर 2008

हवलदार भीम सिंह (सं. 2989577पी अब जेसी-480338के),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 2984788के अब जेसी-480339एम),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार बीर सिंह (सं. 2984360एफ अब जेसी-480340एफ),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार हंस राज वर्मा (सं. 2990666ए अब जेसी-480341के),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार महेश सिंह राजपूत (सं. 2986361एच अब जेसी-480342एम), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 2991196एम अब जेसी-480343पी),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 2993364वाई अब जेसी-480344एक्स),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार शिव राम सिंह तोमर (सं. 2986921के अब जेसी-480345ए),
01 जनवरी 2008

हवलदार श्याम सिंह (सं. 2986923पी अब जेसी-480346एच),
01 जनवरी 2008

हवलदार नाहर सिंह राठौर (सं. 2988949एच अब जेसी-480347एल),
01 जनवरी 2008

हवलदार रमेश सिंह (सं. 2983471एम अब जेसी-480348एन),
01 जनवरी 2008

हवलदार बजरंग सिंह राठौर (सं. 2986382वाई अब जेसी-480349डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

हवलदार दिलीप सिंह (सं. 2984512एक्स अब जेसी-480350एल),
01 जनवरी 2008

हवलदार राम सिंह भाटी (सं. 2986115ए अब जेसी-480351एन),
01 जनवरी 2008

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 2985943डब्ल्यू अब जेसी-480352डब्ल्यू),
01 जनवरी 2008

हवलदार अभय सिंह (सं. 2986809एक्स अब जेसी-480353वाई),
01 जनवरी 2008

हवलदार लच्छी राम गुजर (सं. 2986976एन अब जेसी-480354एफ),
01 जनवरी 2008

हवलदार मधु सूदन शर्मा (सं. 2990793पी अब जेसी-480355के),
01 जनवरी 2008

हवलदार नन्द किशोर सिंह तोमर (सं. 2987300एक्स अब जेसी-480356एम), 01 जनवरी 2008

हवलदार योगेन्द्र सिंह चौहान (सं. 2986718एन अब जेसी-480357पी),
01 जनवरी 2008

हवलदार रानू सिंह भाटी (सं. 2988032एल अब जेसी-480358एक्स),
01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार/लिपिक सुरेन्द्र सिंह (सं. 2992244एन अब जेसी-480359ए),
01 फरवरी 2009

हवलदार/लिपिक रामाकान्त बेहरा (सं. 2992245डब्ल्यू अब जेसी-480360पी), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भंवर सिंह (सं. 2986346एन अब जेसी-480361एक्स),
26 दिसम्बर 2009

हवलदार राम कोमल सिंह (सं. 2986882डब्ल्यू अब जेसी-480362ए),
01 जनवरी 2009

हवलदार उमेश सिंह (सं. 2987189वाई अब जेसी-480363एच),
01 जनवरी 2009

हवलदार मनिक कुमार राय (सं. 2986001एच अब जेसी-480364एल), 01 जनवरी 2009

हवलदार जोगिन्दरा सिंह चौहान (सं. 2986718एन अब जेसी-480365एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार राम स्नेही (सं. 2983389एक्स अब जेसी-480366डब्ल्यू),
11 जनवरी 2009

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2985050एच अब जेसी-480367वाई),
01 फरवरी 2009

हवलदार सुरेश सिंह तोमर (सं. 2986906पी अब जेसी-480368एफ),
01 फरवरी 2009

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2989479पी अब जेसी-480369के),
01 फरवरी 2009

हवलदार रामेश्वर लाल गुर्जर (सं. 2990438एक्स अब जेसी-480370वाई), 01 फरवरी 2009

हवलदार मंगल सिंह (सं. 2985799एल अब जेसी-480371एफ),
01 फरवरी 2009

हवलदार राजवीर सिंह कुशवाह (सं. 2986158एम अब जेसी-480372के), 01 फरवरी 2009

हवलदार हरिभान सिंह गुर्जर (सं. 2986379वाई अब जेसी-480373एम), 01 फरवरी 2009

हवलदार राम नरेश सिंह (सं. 2987190एन अब जेसी-480374पी),
01 फरवरी 2009

हवलदार रामाधार (सं. 2985963के अब जेसी-480375एक्स),
01 फरवरी 2009

हवलदार मोहम्मद सुफीउल्लाह (सं. 8032683के अब जेसी-480376ए), 01 फरवरी 2009

हवलदार रनवीर सिंह (सं. 2990844एक्स अब जेसी-480377एच),
01 फरवरी 2009

हवलदार नाहर सिंह राठौर (सं. 2988949एच अब जेसी-480347एल),
01 जनवरी 2009

हवलदार रमेश सिंह (सं. 2983471एम अब जेसी-480348एन),
01 जनवरी 2009

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तिलक राज सिंह (सं. 2876063के अब जेसी-470375के),
14 मई 2002

हवलदार सुनील कुमार (सं. 2882045एक्स अब जेसी-470376एम),
28 जनवरी 2009/01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेंद्र कुमार (सं. 2884116एम अब जेसी-470377पी),
09 फरवरी 2009/19 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार/म्युजिसियन राजेंद्र कुमार (सं. 2479014वाई अब जेसी-470378एक्स), 18 नवम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लिपिक सुरेश पाल (सं. 2882779वाई अब जेसी-470379ए),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार लिपिक अजित सिंह (सं. 2882793एल अब जेसी-470380पी), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार लिपिक पपिल कुमार (सं. 2882794एन अब जेसी-470381एक्स), 01 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राम प्रताप (सं. 2883342एक्स अब जेसी-470382ए),
19 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार श्री भगवान (सं. 2885174एच अब जेसी-470383एच),
23 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रामफल (सं. 2883411एच अब जेसी-470384एल),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार धर्मदेव बहादुर सिंह (सं. 2882088एम अब जेसी-470385एन),
16 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रनबीर सिंह (सं. 2884874के अब जेसी-470386डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार सुरेश चंद्र (सं. 2881423वाई अब जेसी-470387वाई),
03 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लाल सिंह खिचि, एस एम (सं. 2881844एफ अब
जेसी-470388एफ), 03 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अजित सिंह (सं. 2885799एक्स अब जेसी-470389के),
13 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेंद्र सिंह (सं. 2885487एफ अब जेसी-470390वाई),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार चरन सिंह भदोरिया (सं. 2885558एक्स अब जेसी-
470391एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार भंवर सिंह (सं. 2883886एम अब जेसी-470392के),
27 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जगेश्वर सिंह (सं. 2883779एल अब जेसी-470393एम),
19 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार शंकर सिंह (सं. 2884244के अब जेसी-470394पी),
09 दिसम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार धरमबीर (सं. 2883586एल अब जेसी-470395एक्स),
09 जनवरी 2009/05 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लिपिक पृथ्वी सिंह (सं. 2882795डब्ल्यू अब जेसी-
470396ए), 01 नवम्बर 2008

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 2883974एच अब जेसी-470397एच),
26 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार गम्भीर सिंह (सं. 2883535एक्स अब जेसी-470398एल),
16 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार भीम सिंह (सं. 2885214वाई अब जेसी-470399एन),
01 नवम्बर 2008

हवलदार राम मेहर सिंह (सं. 2883729ए अब जेसी-470400एफ),
10 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 2883989एल अब जेसी-470401ए),
15 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 2884026एल अब जेसी-470402एच),
12 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 2894917एफ अब जेसी-470403एल),
01 नवम्बर 2008

हवलदार अजय कुमार सिंह (सं. 2886500एम अब जेसी-470404एन),
13 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार बीर पाल सिंह (सं. 2883019एच अब जेसी-470405डब्ल्यू),
19 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2888403एन अब जेसी-470406वाई),
14 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राजेंद्र कुमार वर्मा (सं. 2884915एच अब जेसी-470407एफ),
10 जनवरी 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राम लखन सिंह (सं. 2887851एन अब जेसी-470408के),
02 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार तक्दीर सिंह (सं. 2883938एक्स अब जेसी-470409एम),
22 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुभाष चंद्र (सं. 2884808एफ अब जेसी-470410एफ),
01 नवम्बर 2008

हवलदार गर्जेन्द्र कुमार (सं. 2887002एम अब जेसी-470411के),
19 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राधे श्याम (सं. 2889365पी अब जेसी-470412एम),
01 नवम्बर 2008

हवलदार बजरंग सिंह (सं. 2889404एच अब जेसी-470413पी),
15 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार नर्गेन्द्र सिंह (सं. 2882672के अब जेसी-470414एक्स),
03 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

4 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश कुमार गुरुंग (सं. 5345800वाई अब जेसी-612756के),
31 मार्च 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2008)

हवलदार देवी राम थापा (सं. 5346110एफ अब जेसी-612757एम),
31 मार्च 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2008)

हवलदार (लिपिक) ब्रिज किशोर (सं. 5345726एच अब जेसी-
612758पी), 01 अप्रैल 2008

हवलदार (लिपिक) रेड्डी वेंकट राव (सं. 5345748एफ अब जेसी-
612759एक्स), 04 अप्रैल 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2008)

हवलदार कर्ण बहादुर गुरुंग (सं. 5346371पी अब जेसी-612760एम),
01 अप्रैल 2008

हवलदार दिल बहादुर गुरुंग (सं. 5346469एच अब जेसी-
612761पी), 01 अप्रैल 2008

हवलदार पूर्ण बहादुर बुढा (सं. 5346149एन अब जेसी-
612762एक्स), 26 अप्रैल 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2008)

हवलदार मनोज कुमार गुरुंग (सं. 5346535ए अब जेसी-612763ए),
01 मई 2008

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5346688के अब जेसी-612764एच),
03 मई 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मई 2008)

हवलदार नल बहादुर राना (सं. 5346665एच अब जेसी-
612765एल), 03 मई 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मई 2008)

हवलदार शेर बहादुर गुरुंग (सं. 5346670एन अब जेसी-612766एन),
03 मई 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मई 2008)

हवलदार (लिपिक) राउत तुकाराम वैजनाथ (सं. 5345766के अब
जेसी-612767डब्ल्यू), 01 जून 2008

हवलदार छबि लाल प्रधान (सं. 5346238एम अब जेसी-
612768वाई), 10 जून 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2008)

हवलदार यम बहादुर पुन (सं. 5346243एक्स अब जेसी-
612769एफ), 10 जून 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2008)

हवलदार चिज बहादुर गुरुंग (सं. 5346508डब्ल्यू अब जेसी-
612770डब्ल्यू), 01 जून 2008

हवलदार (लिपिक) श्री कान्त शर्मा (सं. 5345734एफ अब जेसी-
612771वाई), 02 जुलाई 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जुलाई 2008)

हवलदार हरि चन्द्र बुढा (सं. 5346770वाई अब जेसी-612772एफ),
01 जुलाई 2008

हवलदार पवन कुमार गुरुंग (सं. 5345608पी अब जेसी-612773के),
29 जुलाई 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 26 अप्रैल 2008)

हवलदार धन बहादुर गुरुंग (सं. 5345661ए अब जेसी-612774एम),
29 जुलाई 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 26 अप्रैल 2008)

हवलदार मनि राज घले (सं. 5346319एम अब जेसी-612775पी),
20 अगस्त 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 14 जुलाई 2008)

हवलदार कैलाश कुमार थापा मगर (सं. 5346679एच अब जेसी-
612776एक्स), 01 सितम्बर 2008

हवलदार बाबु राम लामा (सं. 5345728एन अब जेसी-612777ए),
16 सितम्बर 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008)

हवलदार लोक मान गुरुंग (सं. 5346046पी अब जेसी-612778एच),
16 सितम्बर 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2008)

हवलदार इन्द्र बहादुर थापा (सं. 5345654के अब जेसी-612779एल),
01 अक्टूबर 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2007)

हवलदार लाल बहादुर राना (सं. 5346799एफ अब जेसी-
612780ए), 22 सितम्बर 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 25 अगस्त 2008)

हवलदार दीपक थापा (सं. 5346358एल अब जेसी-612781एच),
14 अक्टूबर 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार तुलसी प्रसाद गुरुंग (सं. 5346199वाई अब जेसी-
612782एल), 01 नवम्बर 2008

हवलदार पदम बहादुर थापा (सं. 5346813एच अब जेसी-
612783एन), 01 नवम्बर 2008

हवलदार हर्क बहादुर थापा (सं. 5346908एच अब जेसी-
612784डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

हवलदार संजोक कुमार (सं. 5346823एम अब जेसी-612785वाई),
01 सितम्बर 2008

हवलदार अम्मर सिंग पुन (सं. 5346842एक्स अब जेसी-
612786एफ), 20 अक्टूबर 2008

हवलदार (लिपिक) वेनुगोपाला राव पेडाडा (सं. 5345746डब्ल्यू अब
जेसी-612787के), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार सचित थापा, एस एम (सं. 5346182एल अब जेसी-
612788एम), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार दिल बहादुर थापा (सं. 5346912एल अब जेसी-
612789पी), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार (लिपिक) राम कुमार शर्मा (सं. 5346905पी अब जेसी-
612790के), 15 दिसम्बर 2008@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 08 दिसम्बर 2008)

हवलदार चोक बहादुर थापा एस एम (सं. 5346210एक्स अब जेसी-
612791एम), 01 जनवरी 2009

सिक्ख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगपाल सिंह (सं. 3390594ए अब जेसी-500087पी),
06 दिसम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008)

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 3387417पी अब जेसी-500088एक्स),
22 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2008)

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 3391552ए अब जेसी-500089ए),
15 नवम्बर 2008

हवलदार हरदीप सिंह (सं. 2987290वाई अब जेसी-500090पी),
01 जनवरी 2009

हवलदार मंगल सिंह (सं. 3389715के अब जेसी-500091एक्स),
01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राम सिंह चुन्डावत (सं. 3390397एक्स अब
जेसी-500092ए), 08 दिसम्बर 2008

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008)

हवलदार (लिपिक) देशमुख दादाजी दततरे (सं. 3183589एच अब
जेसी-500093एच), 08 दिसम्बर 2008

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008)

जे. राय चौधरी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 339, दिनांक 12 मई 2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर
श्रीमती लीलम्मा मैथ्यू, तकनीकी अधिकारी 'ए', योजना एवं समन्वय
निदेशालय, डीआरडीओ मुख्यालय 30 अप्रैल 2009 (अपराह) को
सेवानिवृत्त हो गई हैं और 01 मई 2009 (पूर्वाह) से पेंशन स्थापना में
स्थानांतरित हो गई हैं।

बी. बी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi, the 20th June 2009
ARMY BRANCH
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERING

No. 335, dated 11th May 2009.—The President is pleased to appoint Lt Col (Retd) Baruna Madan to the grade of Assistant Executive Engineer with effect from 01 Apr 2007 (Forenoon) in the Corps of EME under Ministry of Defence.

The President is pleased to appoint Maj (Retd) Priya Bedekar to the grade of Assistant Executive Engineer with effect from 03 Apr 2007 (Forenoon) in the Corps of EME under Ministry of Defence.

The President is pleased to appoint Maj (Retd) Gaurishtha to the grade of Assistant Executive Engineer with effect from 01 Apr 2007 (Forenoon) in the Corps of EME under Ministry of Defence.

N K KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 336, dated 11th May 2009.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Wq Cdr (& equivalent) to be Gp Capt (Selection)

R K Lalla
(MR-03747M) (AF-17103)

— 26 Feb 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Oct 2006

B S RATHORE
Maj Genl
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 337, dated 11th May 2009.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

R Anantha Krishnan (MR-06948N), (75626), AMC, 06 Jan 2009

Vimal Vibhakar (MR-06966W), (75627B), AMC, 06 Jan 2009

Major to be Lt Col

(Mrs) Sobha Rani (MR-07601N), AMC, 12 Aug 2007

Debasish Sahu (MR-07677N), AMC, 06 Dec 2008

Tilak Bahadur Khattri (MR-07914M), AMC, 23 Dec 2008
R Venkat Narayan (MR-06950L), AMC, 06 Jan 2009
Yashvir Mathur (MR-06957P), AMC, 06 Jan 2009

YASH PANDE
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 338, dated 11th May 2009.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
INFANTRY
THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Surender Kumar (No. 3184366X now JC-490397K),
01 Oct 2008

Hav Hoshiyar Singh (No. 3180872L now JC-490398M),
17 Jan 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Pal Singh (No. 3182993L now JC-490399P),
25 Feb 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Feb 2009 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Khet Singh Rathore (No. 3179222L now JC-490400Y), 01 Jan 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Gurmail Singh (No. 3180726L now JC-490391H),
11 Jan 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Deevan Singh Verma (No. 3180783M now JC-490392L),
11 Jan 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Rajpal Singh (No. 3180250K now JC-490393N), 04 Jan 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Nov 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Surender Singh (No. 3185148L now JC-490394W),
22 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Dec 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Permod Kumar (No. 3182722N now JC-490395Y),
19 Dec 2008

Hav Subash Chander Choudhary (No. 3180785X now JC-490396F), 19 Dec 2008

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Anil K (No. 2593420Y now JC-440146K), 22 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav K Manickam (No. 2592857A now JC-440157W), 27 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav T Edward Sam (No. 2591914K now JC-440149X), 15 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Venugopalan K (No. 2593605A now JC-440080Y), 01 Oct 2008

Hav A Sekar (No. 2594996H now JC-440104X), 12 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav Santhosh Kumar SS (No. 2594930M now JC-440119A), 06 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav P Madhappan (No. 2590179M now JC-440126W), 11 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav Pradeep Kumar S (No. 2592841P now JC-440134P), 29 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav Suresh Kumar B (No. 2593721H now JC-440135X), 25 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav Kumar N (No. 2593648P now JC-440137H), 29 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav Monnaiah MU (No. 2596162P now JC-440138L), 29 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav M Siva Prasada Rao (No. 2591044X now JC-440142N), 08 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav Kosuru Chella Rao (No. 2591710X now JC-440143W), 06 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav Jayakumar KR (No. 3391268K now JC-440144Y), 17 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Oct 2008 without effect on pay and allces)

Hav Kamalakshan (No. 2592803Y now JC-440139N), 01 Nov 2008

Hav M Chenthamarai Krishnan (No. 2593132M now JC-440140H), 01 Nov 2008

Hav Shanmugam V (No. 2594784X now JC-440145F), 17 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allces)

Hav Peddinti Ramakrishna (No. 2596559 now JC-440159F), 01 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allces)

Hav Shaji VK (No. 2593682P now JC-440162F), 26 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allces)

Hav S Arul Raj (No. 2592732H now JC-440163K), 03 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allces)

Hav G Chelladurai (No. 2593077F now JC-440164M), 04 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allces)

Hav C Thangaraj (No. 2592442L now JC-440166X), 29 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allces)

Hav Santhosh Kumar S (No. 3391305M now JC-440168H), 15 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Nov 2008 without effect on pay and allces)

Hav Padmapuram Rama Rao (No. 2592358L now JC-440167A), 16 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Nov 2008 without effect on pay and allces)

Hav Vel Murugan V (No. 2594696F now JC-440156N), 01 Dec 2008

Hav Muthaiyan R (No. 2594820X now JC-440154H), 01 Dec 2008

Hav Ram Kumar L (No. 2598585F now JC-440155L), 08 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allces)

Hav Uthappa BC (No. 2596918K now JC-440165P), 05 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allces)

Hav M Jagannath (No. 2592812A now JC-440160W), 01 Jan 2009

Hav Suresh Kumar B (No. 2592829N now JC-440034K), 09 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allces)

Hav N Subramani (No. 2592620H now JC-440035M), 11 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allces)

Hav Chidambaram D (No. 2594438F now JC-440047F), 01 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allces)

Hav Shunmugavel K (No. 2592430W now JC-440059W), 11 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allces)

Hav Elson Thumbipuram (No. 2592778L now JC-440060L), 04 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jun 2008 without effect on pay and allces)

Hav V Ravi (No. 2593631F now JC-440066M), 12 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jun 2008 without effect on pay and allces)

Hav Reghu Kumar R (No. 2593410P now JC-440061N), 28 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jun 2008 without effect on pay and allces)

Hav Nutenki Rajender (No. 2592450K now JC-440052M), 18 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Jun 2008 without effect on pay and allces)

Hav K Adinarayana (No. 2596660F now JC-440088L), 14 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Jul 2008 without effect on pay and allces)

Hav Baburaj Puthupadi (No. 2591969N now JC-440086A), 04 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allces)

Hav A Swarnasekhara Babu (No. 2591883P now JC-440102M), 21 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allces)

Hav Gona Kesaiah (No. 2591900K now JC-440103P), 21 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allces)

Hav C Muthu Kumar (No. 2594239N now JC-440108N), 10 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allces)

Hav P Liver Raj (No. 2593830P now JC-440118X), 06 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allces)

Hav Poola Mohan (No. 2592573W now JC-440128F), 11 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Aug 2008 without effect on pay and allces)

Hav Devaraj B (No. 2592961N now JC-440127Y), 15 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Aug 2008 without effect on pay and allces)

Hav K Alexander (No. 2593109Y now JC-440121X), 09 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Aug 2008 without effect on pay and allces)

Hav G Mani (No. 2588582A now JC-440106H), 01 Sep 2008

Hav A Vasudevan (No. 2593389X now JC-440098P), 13 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Maddu Dharma Rao (No. 2595543K now JC-440107L), 01 Sep 2008

Hav N Ganeshamurthi Narayanan, SM (No. 2592068N now JC-440110L), 18 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav K Agastian Raj (No. 2594666K now JC-440114F), 25 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Saju Paul (No. 2593418L now JC-440122A), 01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav G Selvan (No. 2592174M now JC-440123H), 01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Anil KN (No. 2592835F now JC-440124L), 08 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Robinson C (No. 4359382K now JC-440133M), 20 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav P Venkatesan (No. 2592166N now JC-440117P), 14 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Keelu Kantha Rao (No. 2590462A now JC-440116M), 20 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav O Manikandan (No. 2593066P now JC-440125N), 06 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav S Chandrasekaran (No. 3391197N now JC-440136A), 29 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep 2008 without effect on pay and allces)

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Dinesh Singh (No. 2681353F now JC-450595M), 02 Nov 2008

(Gtd seniority wef 28 Sep 2008 without effect on pay and allces)

Hav Shiv Raj Singh Siorhi (No. 8031395L now JC-450596P), 01 Oct 2008

Hav Nain Singh (No. 2680830L now JC-450597X), 01 Oct 2008

Hav Surinder Singh (No. 2680896F now JC-450598A), 01 Oct 2008

Hav Om Prakash Mundiara (No. 2680521H now JC-450599H), 01 Oct 2008

Hav Kanwar Lal (No. 2680587Y now JC-450600M), 01 Oct 2008

Hav Hukmi Ram (No. 2680802Y now JC-450601P), 01 Oct 2008

Hav Parma Ram (No. 2681980N now JC-450602X), 01 Oct 2008

Hav Davander Singh (No. 2680289H now JC-450603A), 01 Oct 2008

Hav Mohinder Singh (No. 2683199M now JC-450604H), 01 Oct 2008

Hav Kartar Singh (No. 2680230H now JC-450605L), 01 Oct 2008

Hav Chena Ram (No. 2680911L now JC-450606N), 01 Oct 2008

Hav Arun Kumar Singh (No. 2682144W now JC-450607W), 01 Oct 2008

Hav Ram Pratap Singh Bhadoria (No. 2682214K now JC-450608Y), 01 Oct 2008

Hav Vinod Kumar (No. 2682042A now JC-450609F), 01 Oct 2008

Hav Abdul Rajjak (No. 2680214L now JC-450610W), 01 Oct 2008

Hav Ram Ran Vijay Singh (No. 2680594P now JC-450611Y), 01 Oct 2008

Hav Man Singh Naruka (No. 2680644P now JC-450612F), 01 Oct 2008

Hav Nura (No. 2680070N now JC-450613K), 01 Oct 2008

Hav Jagdish Chand (No. 2679711H now JC-450614M), 01 Oct 2008

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 2682448N now JC-450615P), 01 Oct 2008

Hav Kushal Chand (No. 2680374L now JC-450616X), 01 Oct 2008

Hav Baru Ram (No. 2682052K now JC-450617A), 01 Oct 2008

Hav Khadim Ahmed (No. 2682580N now JC-450618H), 01 Oct 2008

Hav Khan Mohammad Kayamkhani (No. 2683204M now JC-450619L), 01 Oct 2008

Hav Ast Ali Khan (No. 2683247F now JC-450620A), 01 Oct 2008

Hav Tarsem Lal Sharma (No. 2681588N now JC-450621H), 01 Oct 2008

Hav Gopal Singh Thakur (No. 2680702N now JC-450622L), 01 Oct 2008

Hav Bodh Raj (No. 2680680M now JC-450623N), 01 Oct 2008

Hav Ashok Kumar (No. 2680200L now JC-450624W), 01 Oct 2008

Hav Ramesh Singh (No. 2680205K now JC-450625Y), 01 Oct 2008

Hav Om Parkash (No. 2680747N now JC-450626F), 01 Oct 2008

Hav Saroop Singh (No. 2680416M now JC-450627K), 01 Oct 2008

Hav Rajbir (No. 2680542Y now JC-450628M), 06 Oct 2008

Hav Gajendra Singh (No. 2680852K now JC-450629P), 06 Oct 2008

Hav Mohammed Islam (No. 2684480P now JC-450630K), 11 Oct 2008

Hav Ram Hari Singh (No. 2678656L now JC-450631M), 12 Oct 2008

Hav Rakesh Kumar Pahel (No. 2678588H now JC-450632P), 15 Oct 2008

Hav Kalu Singh (No. 2680894W now JC-450633X), 02 Nov 2008

(Gtd seniority wef 19 Oct 2008 without effect on pay and allowances.)

Hav Rajbir Singh (No. 2681571A now JC-450634A), 23 Oct 2008

Hav Inder Singh (No. 2678752A now JC-450635H), 01 Nov 2008

Hav Hari Singh (No. 2679480X now JC-450636L), 13 Nov 2008

(Gtd seniority wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances.)

Hav Chorala Ram Karshan (No. 2685065M now JC-450637N), 01 Nov 2008

Hav Hawa Singh (No. 2680218F now JC-450638W), 01 Nov 2008

Hav Budh Ram (No. 2680326L now JC-450639Y), 01 Nov 2008

Hav Shiv Bhan Singh (No. 2680721Y now JC-450640N), 01 Nov 2008

Hav Mehar Singh (No. 2680585N now JC-450641W), 01 Nov 2008

Hav Amar Singh (No. 2679667K now JC-450642Y), 01 Nov 2008

Hav Dilbag Singh (No. 2680598L now JC-450643F), 01 Nov 2008

Hav Shailesh Kumar Mishra (No. 7430702H now JC-450644K), 01 Nov 2008

Hav Satbir Singh (No. 2682085P now JC-450645M), 01 Nov 2008

Hav Netrapal Singh (No. 2681841K now JC-450646P), 01 Nov 2008

Hav Banarsi Dass (No. 2681834N now JC-450647X), 01 Nov 2008

Hav Barvadiya Gopal Kumar Chuni Bhai (No. 2684604L now JC-450648A), 01 Nov 2008

Hav Yashwant Singh (No. 2680037W now JC-450649H), 13 Nov 2008

Hav Ajim Khan (No. 2682896A now JC-450650X), 13 Nov 2008

Hav Krishan Pal Singh (No. 2681596M now JC-450651A), 18 Nov 2008

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Parikshit Ghosh (No. 15359372N now JC-450652H), 01 Jan 2009

Hav/Clk Pradip Kumar Ekaghara (No. 15360471H now JC-450653L), 01 Jan 2009

Hav/Clk Ravindra Singh (No. 15361934Y now JC-450654N), 01 Jan 2009

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Padam Singh (No. 3987025Y now JC-520953M), 26 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances.)

Hav Madan Lal (No. 3986546A now JC-520954P), 21 Jan 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances.)

Hav Bhanu Singh (No. 3986667F now JC-520955X), 21 Jan 2009

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances.)

Hav Raj Kumar (No. 3987704W now JC-520956A), 25 Jan 2009

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2009 without effect on pay and allowances.)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Diwan Singh (No. 3988589N now JC-520957H), 12 Feb 2009+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances.)

THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Subedar

Hav Clk Hanumant Kumar Dwivedi (No. 2986003X now JC-480331A), 17 Nov 2008/01 Nov 2008

Hav Kuibir Singh (No. 2986819F now JC-480332H), 26 Oct 2008

Hav Bijendra Singh (No. 2985603N now JC-480333L), 06 Nov 2008

Hav Raghu Raj Singh (No. 2986899K now JC-480334N), 06 Nov 2008

Hav Rajesh Kumar (No. 2989575F now JC-480335W),
06 Nov 2008

Hav Sarvesh Singh Rathour (No. 2992586F now JC-480336Y), 06 Nov 2008

Hav Tilak Singh (No. 2989278W now JC-480337F),
06 Nov 2008

Hav Bhim Singh (No. 2989577P now JC-480338K), 06 Nov 2008

Hav Jagdish Singh (No. 2984788K now JC-480339M),
01 Dec 2008

Hav Bir Singh (No. 2984360F now JC-480340F), 01 Dec 2008

Hav Hans Raj Verma (No. 2990666A now JC-480341K),
01 Dec 2008

Hav Mahesh Singh Rajput (No. 2986361H now JC-480342M), 01 Dec 2008

Hav Manoj Kumar Singh, SM (No. 2991196M now JC-480343P), 01 Dec 2008

Hav Rajveer Singh (No. 2993364Y now JC-480344X),
01 Dec 2008

Hav Shiv Ram Singh Tomar (No. 2986921K now JC-480345A), 01 Jan 2009

Hav Shyam Singh (No. 2986923P now JC-480346H),
01 Jan 2009

Hav Nahar Singh Rathore (No. 2988949H now JC-480347L), 01 Jan 2009

Hav Ramesh Singh (No. 2983471M now JC-480348N),
01 Jan 2009

Hav Bajrang Singh Rathaur (No. 2986382Y now JC-480349W), 01 Jan 2009

Hav Dalip Singh (No. 2984512X now JC-480350L), 01 Jan 2009

Hav Ram Singh Bhati (No. 2986115A now JC-480351N),
01 Jan 2009

Hav Govind Singh (No. 2985943W now JC-480352W),
01 Jan 2009

Hav Abhai Singh (No. 2986809X now JC-480353Y), 01 Jan 2009

Hav Lachi Ram Gurjar (No. 2986976N now JC-480354F),
01 Jan 2009

Hav Madhu Sudhan Sharma (No. 2990793P now JC-480355K), 01 Jan 2009

Hav Nand Kishor Singh Tomar (No. 2987300X now JC-480356M), 01 Jan 2009

Hav Yogendra Singh Chauhan (No. 2986718N now JC-480357P), 01 Jan 2009

Hav Ranu Singh Bhati (No. 2988032L now JC-480358X),
01 Jan 2009

Hav/Clk Surinder Singh (No. 2992244N now JC-480359A),
01 Feb 2009

Hav/Clk Ramakant Behera (No. 2992245W now JC-480360P), 01 Feb 2009

Hav Bhanwar Singh (No. 2986346N now JC-480361X),
26 Dec 2008

Hav Ram Komal Singh (No. 2986882W now JC-480362A),
01 Jan 2009

Hav Umesh Singh (No. 2987189Y now JC-480363H),
01 Jan 2009

Hav Manik Kumar Roy (No. 2986001M now JC-480364L),
01 Jan 2009

Hav Yogendra Singh Chauhan (No. 2986718N now JC-480365N), 01 Jan 2009

Hav Ram Snehi (No. 2983389X now JC-480366W), 11 Jan 2009

Hav Surender Singh (No. 2985050H now JC-480367Y),
01 Feb 2009

Hav Suresh Singh Tomar (No. 2986906P now JC-480368F),
01 Feb 2009

Hav Balwir Singh (No. 2989479P now JC-480369K),
01 Feb 2009

Hav Rameshwar Lal Gurjar (No. 2990438X now JC-480370Y), 01 Feb 2009

Hav Mangal Singh (No. 2985799L now JC-480371F),
01 Feb 2009

Hav Rajvir Singh Kushwah (No. 2986158M now JC-480372K), 01 Feb 2009

Hav Hari Bhan Singh Gurjar (No. 2986379Y now JC-480373M), 01 Feb 2009

Hav Ram Naresh Singh (No. 2987190N now JC-480374P),
01 Feb 2009

Hav Ramadhar (No. 2985963K now JC-480375X), 01 Feb 2009

Hav MD Sufiullah (No. 8032683K now JC-480376A),
01 Feb 2009

Hav Ranveer Singh (No. 2990844X now JC-480377H),
01 Feb 2009

Hav Nahar Singh Rathore (No. 2988949H now JC-480347L), 01 Jan 2008

Hav Ramesh Singh (No. 2983471M now JC-480348N),
01 Jan 2008

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Tilak Raj Singh (No. 2876063K now JC-470375K),
14 May 2002

Hav Sunil Kumar (No. 2882045X now JC-470376M),
28 Jan 2009/01 Jul 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allces)

Hav Surendra Kumar (No. 2884116M now JC-470377P),
09 Feb 2009/19 Jul 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jul 2008
without effect on pay and allces)

Hav/Musn Rajinder Kumar (No. 2479014Y now JC-
470378X), 18 Nov 2008/01 Sep 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay and allces)

Hav/Clk Suresh Pal (No. 2882779Y now JC-470379A),
01 Oct 2008

Hav/Clk Ajit Singh (No. 2882793L now JC-470380P),
01 Oct 2008

Hav/Clk Papil Kumar (No. 2882794N now JC-470381X),
01 Nov 2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Ram Pratap (No. 2883342X now JC-470382A), 19 Dec
2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Shri Bhagwan (No. 2885174H now JC-470383H),
23 Oct 2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Ramphal (No. 2883411H now JC-470384L), 01 Oct
2008

Hav Dharmendra Bahadur Singh (No. 2882088M now JC-
470385N), 16 Oct 2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Ranbir Singh (No. 2884874K now JC-470386W),
01 Oct 2008

Hav Suresh Chandra (No. 2881423Y now JC-470387Y),
03 Oct 2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Lal Singh Khichi, SM (No. 2881844F now JC-
470388F), 03 Oct 2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Ajit Singh (No. 2885799X now JC-470389K), 13 Nov
2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Surendra Singh (No. 2885487F now JC-470390Y),
01 Oct 2008

Hav Charan Singh Bhadoria (No. 2885558X now JC-
470391F), 01 Oct 2008

Hav Bhanwar Singh (No. 2883886M now JC-470392K),
27 Dec 2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Jageshwer Singh (No. 2883779L now JC-470393M),
19 Dec 2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Sanker Singh (No. 2884244K now JC-470394P),
09 Dec 2008/01 Oct 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allces)

Hav Dharambeer (No. 2883586L now JC-470395X), 09 Jan
2009/05 Oct 2008(S)

Hav/Clk Prithavi Singh (No. 2882795W now JC-470396A),
01 Nov 2008

Hav Ishwar Singh (No. 2883974H now JC-470397H),
26 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Gambhir Singh (No. 2883535X now JC-470398L),
16 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Bheem Singh (No. 2885214Y now JC-470399N),
01 Nov 2008

Hav Ram Mehar Singh (No. 2883729A now JC-470400F),
10 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Pradeep Kumar (No. 2883989L now JC-470401A),
15 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Ramesh Kumar (No. 2884026L now JC-470402H),
12 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Vikram Singh (No. 2894917F now JC-470403L),
01 Nov 2008

Hav Ajay Kumar Singh (No. 2886500M now JC-470404N),
13 Nov 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Bir Pal Singh (No. 2883019H now JC-470405W),
19 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Ashok Kumar (No. 2888403N now JC-470406Y),
14 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Rajendra Kumar Verma (No. 2884915H now JC-
470407F), 10 Jan 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Ram Lakhan Singh (No. 2887851N now JC-470408K),
02 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Takdir Singh (No. 2883938X now JC-470409M),
22 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Subhash Chandra (No. 2884808F now JC-470410F),
01 Nov 2008

Hav Gajendra Kumar (No. 2887002M now JC-470411K),
19 Nov 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Radhe Shyam (No. 2889365P now JC-470412M),
01 Nov 2008

Hav Bajrang Singh (No. 2889404H now JC-470413P),
15 Nov 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Nagendra Pal Singh (No. 2882672K now JC-470414X),
03 Dec 2008/01 Nov 2008(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

4 GR

To be Nb Sub

Hav Ramesh Kumar Gurung (No. 5345800Y now JC-
612756K), 31 Mar 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Mar 2008)

Hav Devi Ram Thapa (No. 5346110F now JC-612757M),
31 Mar 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Mar 2008)

Hav/Clk Brij Kishore (No. 5345726H now JC-612758P),
01 Apr 2008

Hav/Clk Reddi Venkata Rao (No. 5345748F now JC-
612759X), 04 Apr 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Apr 2008)

Hav Karna Bahadur Gurung (No. 5346371P now JC-
612760M), 01 Apr 2008

Hav Dil Bahadur Gurung (No. 5346469H now JC-612761P),
01 Apr 2008

Hav Purna Bahadur Budha (No. 5346149N now JC-
612762X), 26 Apr 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Mar 2008)

Hav Manoj Kumar Gurung (No. 5346535A now JC-
612763A), 01 May 2008

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5346688K now JC-612764H),
03 May 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 May 2008)

Hav Nal Bahadur Rana (No. 5346665H now JC-612765L),
03 May 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 May 2008)

Hav Sher Bahadur Gurung (No. 5346670N now JC-
612766N), 03 May 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 May 2008)

Hav/Clk Raut Tukaram Vajinath (No. 5345766K now JC-
612767W), 01 Jun 2008

Hav Chhabi Lal Pradhan (No. 5346238M now JC-612768Y),
10 Jun 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Mar 2008)

Hav Yam Bahadur Pun (No. 5346243X now JC-612769F),
10 Jun 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Apr 2008)

Hav Chij Bahadur Gurung (No. 5346508W now JC-
612770W), 01 Jun 2008

Hav/Clk Shree Kant Sharma (No. 5345734F now JC-
612771Y), 02 Jul 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Jul 2008)

Hav Hari Chandra Budha (No. 5346770Y now JC-612772F),
01 Jul 2008

Hav Pawan Kumar Gurung (No. 5345608P now JC-
612773K), 29 Jul 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 26 Apr 2008)

Hav Dhan Bahadur Gurung (No. 5345661A now JC-
612774M), 29 Jul 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 26 Apr 2008)

Hav Mani Raj Ghale (No. 5346319M now JC-612775P),
20 Aug 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 14 Jul 2008)

Hav Kailash Kumar Thapa Magar (No. 5346679H now JC-
612776X), 01 Sep 2008

Hav Babu Ram Lama (No. 5345728N now JC-612777A),
16 Sep 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Sep 2008)

Hav Lok Man Gurung (No. 5346046P now JC-612778H),
16 Sep 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Sep 2008)

Hav Indra Bahadur Thapa (No. 5345654K now JC-
612779L), 01 Oct 2008*

*(Gtd Notional seniority without effect on pay and allces
wef 01 Sep 2007)

Hav Lal Bahadur Rana (No. 5346799F now JC-612780A),
22 Sep 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 25 Aug 2008)

Hav Deepak Thapa (No. 5346358L now JC-612781H),
14 Oct 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 01 Oct 2008)

Hav Tulsi Prasad Gurung (No. 5346199Y now JC-612782L),
01 Nov 2008

Hav Padam Bahadur Thapa (No. 5346813H now JC-
612783N), 01 Nov 2008

Hav Harka Bahadur Thapa (No. 5346908H now JC-
612784W), 01 Nov 2008

Hav Sanjok Kumar (No. 5346823M now JC-612785Y),
01 Sep 2008

Hav Ammar Singh Pun (No. 5346842X now JC-612786F),
20 Oct 2008

Hav/Clk Venugopala Rao Pedada (No. 5345746W now
JC-612787K), 01 Dec 2008

Hav Sachit Thapa, SM (No. 5346182L now JC-612788M),
01 Dec 2008

Hav Dil Bahadur Thapa (No. 5346912L now JC-612789P),
01 Dec 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 13 Nov 2008)

Hav/Clk Ram Kumar Sharma (No. 5346905P now JC-
612790K), 15 Dec 2008*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and
allces wef 08 Dec 2008)

Hav Chok Bahadur Thapa, SM (No. 5346210X now JC-
612791M), 01 Jan 2009

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Jagpal Singh (No. 3390594A now JC-500087P),
06 Dec 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Satnam Singh (No. 3387417P now JC-500088X),
22 Sep 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bahadur Singh (No. 3391552A now JC-500089A),
15 Nov 2008

Hav Hardip Singh (No. 2987290Y now JC-500090P),
01 Jan 2009

Hav Mangal Singh (No. 3389715K now JC-500091X),
01 Jan 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Ram Singh Chundawat (No. 3390397X now JC-
500092A), 08 Dec 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef
01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Deshmukh Dadaji Dattatray (No. 3183589H now
JC-500093H), 08 Dec 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef
01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHURY
Under Secy

MINISTRY OF DEFENCE

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 339, dated 12th May 2009.—Consequent upon
attaining the age of superannuation Smt Leelamma Mathew,
TO 'A', Dte of Planning & Co-ordination, DRDO HQ retired
from service with effect from 30 Apr 2009(AN) and transferred
to pension establishment with effect from 01 May 2009 (FN).

BB SHARMA
Jt Director (Pers-I)